



E-MAGAZINE



Session:2025-26

Ambica Vihar, Paschim Vihar, Delhi, 110087
Mob:-011-45654242,43

Principal's Message



Dear Students

Learning is a life long journey. You can create extraordinary futures so dream big. Work diligently towards it and learn to appreciate the small steps you take each day. I believe you can all do it.

ORIENTATION PROGRAMME

A variety of activities and information sessions to help new students and their parents or guardians adjust to the school environment.



Familiarizing them with the school's layout, rules, academic expectations.



Fostering a sense of community among students and their families.



REPUBLIC DAY CELEBRATION



Fostering patriotism, educating students about the nation's history and values

Celebrations typically involve flag hoisting, cultural programs, and educational activities that highlight the significance of the Indian Constitution and the country's democratic ideals.



Republic Day reminds students of their duties as citizens and encourages them to uphold the values of the Constitution, including justice, equality, and freedom.



कविता वाचन

कविता वाचन एक कला है,
जिसे अभ्यास से सीखा जा
सकता है।



कविता के भाव को
समझना चाहिए और उसी
के अनुसार पढ़ना चाहिए।



यह श्रोताओं को कविता के
सौंदर्य का अनुभव करने और
उससे जुड़ने में मदद करता है।



उचित स्थानों पर रुकना चाहिए,
ताकि श्रोता को समझने में
आसानी हो।



THEATRE

Enhancing learning through active participation, improving communication and social skills, fostering critical thinking, and providing a platform for creative



Activities like role-playing and improvisation help students learn to express themselves clearly and confidently.



Creativity in Action

Stage offers stage design, lighting, sound, costumes, props, and the performance itself, which can encompass acting, singing, dancing, or musical presentations.



The physical platform where the performance takes place, providing a designated space for actors, dancers, or musicians to interact with the audience.



SPORTS HUB



Sports activities provide physical exercise, which is vital for combating sedentary lifestyles and reducing the risk of obesity and related health issues.



Sports improve coordination, balance, and movement, reducing the risk of falls and injuries.

EMPOWERING EDUCATORS



Healthy coping mechanisms, and a supportive network.

Effective stress management is an ongoing process that involves a combination of proactive strategies.



These workshops often incorporate relaxation techniques, coping skills training, and strategies for building resilience.



Chilling With Sweets

Summer offers a fantastic opportunity for kids to engage in fun and enriching activities.



An ice cream party is a fun and engaging way to celebrate with kids, offering a mix of sweet treats and enjoyable activities.



To make the most of it, consider themed decorations, ice cream sundae bars, and even ice cream-related games.



ACCOLADES



CLEAN EARTH GREEN EARTH

Organized competitions and challenges to reduce waste in classrooms and school grounds, promoting creative solutions for waste minimization.



Encourage students to adopt the "3 Rs" in their daily lives by reducing consumption, reusing items, and recycling materials.



Practical waste management and conservation efforts to educational initiatives that foster awareness and stewardship.



Integrate environmental education into various subjects, including science, social studies, and language arts.



CELEBRATING EARTH



It's a great opportunity to learn about the environment.

Discuss topics like pollution, deforestation, and climate change in an age-appropriate way, explaining how these affect the planet and its inhabitants.



This is a great way to teach kids about the importance of plants and how they help clean the air and provide homes for animals.



MOCK DRILL ACTION PLAN



Knowing what to do in an emergency builds confidence and reduces fear and anxiety.

Mock Drill is crucial to ensure the safety and well-being of students and staff.



A well-developed emergency plan, including regular drills and training, can minimize the impact of unforeseen events.



Working together on emergency preparedness strengthens the bond between the school, students, staff, and the wider community.



In Headlines

सम्पादकीय/विविधा

11

तीन दिवसीय बाल रंगमंच महोत्सव में बच्चों की प्रतिभा ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध



'यूँ दिखली दुःखः दे सँ
 कीस विपदः एहँ चालू
 दुःखःपड़ल एहँ दुःखी
 दुःखी दुःखी काल करे, करे
 सँसँ मँसल
 दुःखी दुःखी तन दिखल
 दुःखी दुःखी मँसल
 दुःखी दुःखी मँसल

उपकरण, शरीरिक भूषा और पात्र-परधान देखकर कविता भावपूर्णता का गूढ़ प्रमाणों में पोषित लक्षकों राज विमर्श और अनुसृत पात्रों का निरन्तर संवेद्यता यन्त्रों एवं आत्मा पात्रों में कविता जबकि

वीरगाथा का निरन्तर वस्तुतः पात्रक में तब ही दृष्टिकोण का निरन्तर प्रमाण एवं तब ही निर्मित शरीरगत एवं तब ही निर्मित शरीरगत का प्रमाण अन्तर्गत सुविधियों में निर्मित करने वाले कवियों द्वारा प्रमाण पात्रक वस्तुतः

में उनका अभिनिर्देश किया। पात्रकवित्तो देव कवियों के लिए प्रमाण अन्तर्गत-निर्माण का प्रमाण यन्त्र, कविता देव पात्रक की सुविधियों में देव का सहायक शरीर की सहायक

हूँ। सन्तान अन्तर्गत

महोत्सव में हुआ 12 नाटकों का मंचन-स्लम के बच्चों ने एण्थालोक अहिन्त्याबाई का मंचन कर किया आर्शचयचकि



कलाकारों को प्रशिक्षण देने परकी को प्रभावित कर दिया। ऐसी ही प्रभावित करने का विचार किया।



बचपन की कचहरी और निर्दोश अहिंसावाद का पंथन रहा सभी बच्चों को प्रतिभा विमल का निर्दोश अधपंक प्रभावशाली हिए व हुनरों में राणा ने किया। नाटक प्रभावशाली हिए व हुनरों में राणा ने किया। नाटक प्रभावशाली हिए व हुनरों में

तीन दिवसीय बाल रंगमंच महोत्सव संपन्न

कार्यक्रम

नई दिल्ली, लोकसत्य



श्रीमद्दिन तक चला काल रंगमंच
माहौल में झुकाव को हींदी गायी
उद्योग के साथ रंगमंच आया। यह
आमोना उद्घाटन: द सेक्टर डायल
फिफ्टन आर्ट एंड च्याइइड ऑनलमनेट
में संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से
किया। यथोक्त में 12 नाटकों का
मंचन कर अपनी प्रतिभा,
आयुर्विज्ञान और समाजदारी से
सम्बन्धों पैदा दिया। इस काल
रंगमंच महोत्सव का उद्घाटन
आईनोवेटिव के सदस्य रविशंकर ठा
रविशंकरादित्त जीरो ने किया। सभी
नाटकों का निर्देशन रंगकामी संजय
टुटेजा ने किया।

स्टेडिअम पूर्ण नाटक शामिल रहे। यह नाटक बच्चों को रंगमंच की कार्यशालाओं में प्रेरित कर तैयार किए गए थे। मंच पर बच्चों का आत्मविश्वास, बोलने की सहजता और भाव-भंगिमाएं देखकर दर्शक कबھی प्रभावित हुए।

वाले बच्चों ने 'पुष्पश्लोक
अर्धित्याचर्य' नटक प्रस्तुत किया।
योगेश पंवार के निर्देशन में मंडल
इस प्रस्तुति में बच्चों ने ऐतिहासिक
पात्रों को इतनी सजीवता से निर्या कि
दर्शक खड़े होकर सलियाँ बजाते पर
मजबूर हो गए। सम्मेलन के अंत में
सभी बच्चों को प्रमाणपत्र और ट्रॉफी
भेंट कर सम्मानित किया गया।

तीन दिवसीय बाल रंगमंच महोत्सव में बच्चों की प्रतिभा ने दर्शकों को किया मंत्रमग्न महोत्सव में हुआ 12 नाटकों का मंचन



- स्तन के बल्लों ने पुनरावर्तक अतिरिक्त
मध्य कर दिया आसुतवर्तक



अमीन मुल्ला अतिथि रहे ।

[illegible][illegible]

बाल नाटकों ने हंसाया, रुलाया और दिए सामाजिक संदेश

नई दिल्ली। द सेंटर ऑफ थिएटर आर्ट एंड चाइल्ड डवलपमेंट और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त देखरेख में तीन दिवसीय बाल रंगमंच महोत्सव का शनिवार को समापन हुआ। समवेत सभागार में हुए इस आयोजन में 12 बाल नाटकों का मंचन हुआ, जिसने दर्शकों को हंसाया, रुलाया और सामाजिक संदेश भी दिए।

रंगकमी संजय टुटेजा के निर्देशन में हुए इस महोत्सव का उद्घाटन आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने किया। नाटकों में बच्चों के आत्मविश्वास, संवाद



बाल रंगमंच महोत्सव में प्रस्तुति देते बाल कलाकार। अमर उजाला

अदायगी, शारीरिक भाषा और अभिनय ने दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव में प्रस्तुत किए गए प्रमुख नाटकों में राजा मिडास, जादुई पतंग, बच्चों की कचहरी,

लिटिल विमेन, समस्यापुर, जंगल बुक, एनिमल फार्म, अंधेर नगरी, वीरगाथा और द मैजिकल बस शामिल रहे। व्यंश



सेन्ट्रल बैंक

YELLOW DAY



These events help children recognize and identify the color yellow, explore its various shades, and develop an appreciation for its presence in everyday life.



The celebrations often involve children dressing in yellow, bringing yellow objects, and engaging in activities that reinforce the theme.



LEARNING PATIENCE AND PROGRESS THROUGH SAPPLINGS



Engaging with nature through gardening fosters a sense of wonder and appreciation for the natural world, leading to a greater desire to protect ecosystems.





ENGLISH DEBATE COMPETITION





Day of Remembrance

In loving memory of our founder, Dr. T. David Lall, our senior students spent a meaningful day at the old age home, sharing meals, smiles, and love with the elderly. A small act of kindness, a big tribute to his vision of service.



To reflect upon ideals
by serving the poor
and needy for
attaining blessings.



BAGLESS DAY



These days shift the focus from traditional textbook-based learning to hands-on activities, vocational training, and exploration of the local environment.



This initiative seeks to make learning more engaging, stress-free, and relevant to real-world applications.

